

प्रेषक,

हरबंस सिंह चुघ,
प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,
भारत सरकार,
14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।

रोजगार सृजन, कौशल विकास,
श्रम एवं सेवायोजन विभाग

देहरादून: दिनांक ८^१ नवम्बर, 2017

विषय:- क्षेत्रीय समिति, कर्मचारी भविष्य निधि, उत्तराखण्ड के पुनर्गठन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली, के पत्र संख्या: Conf.5(21)2008/Uttarakhand दिनांक 14.09.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कर्मचारी भविष्य निधि, उत्तराखण्ड की पुनर्गठित होने वाली क्षेत्रीय समिति हेतु निम्नानुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों को एतद्द्वारा नामित किये जाने की संस्तुति की जाती है:-

शासन के प्रतिनिधि:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम, उत्तराखण्ड शासन : अध्यक्ष
2. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी : सदस्य
3. अपर सचिव, श्रम, उत्तराखण्ड शासन : सदस्य

सेवायोजकों के प्रतिनिधि:-

1. श्री हरेन्द्र कुमार गर्ग, सैलो इण्डरस्ट्री सिडकुल हरिद्वार। : सदस्य
2. श्री राम प्रकाश गुप्ता, प्रबन्धक आशुतोष विद्या मन्दिर,
जूनियर हाई स्कूल रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर। : सदस्य

श्रमिकों के प्रतिनिधि:-

1. श्री रमेश जोशी, प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ,
कार्यालय बागेश्वर होटल के ऊपर निकट रोडवेज हल्लानी। : सदस्य
2. श्री अनिल राठी, स्टेट जनरल सेक्रेट्री, बी.एम.एस. देहरादून। : सदस्य

भवदीय,

(हरबंस सिंह चुघ)
प्रभारी सचिव।

संख्या-1603 (A) (1)/VIII/17-685(श्रम)/2002/टीसी। तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्न लिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, हल्लानी, नैनीताल को उनके पत्र संख्या: 4002/छ:-3-क.भ.निधि /2016, दि. 28.09.2017 के क्रम में।
- ✓ 2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भविष्य निधि भवन, व्योमप्रस्थ जी.एम.रोड देहरादून।
- ✓ 3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस.एस.वल्दिया)
अपर सचिव।